

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 443]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2014—भाद्र 28, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2014

क्र. 31-एफ-1-10-2014-अठारह-3.—राज्य शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1880-2001-अठारह-03, दिनांक 30 मई 2001, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 30 मई 2001 के पृष्ठ क्रमांक 627 पर प्रकाशित की गई है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.